

July 13, 2021

Asst. Vice President, Listing Deptt.,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding the issue of duplicate share certificates in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

Kindly note that duplicate share certificates will be issued to the concerned shareholders in case no objection is received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Limited



(Dhiraj Kapoor)
General Manager - Secretarial

Encl.: As above

("EGM") of the Members of the Manorama Industries Limited ("Company") (CIN: L15142MH2005PLC243687), will be held on Tuesday, August 3, 2021 at 3.00 PM through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means (OAVM) facility ONLY, to transact the business as set in the notice convening the said EGM.

In view of the ongoing Covid-19 pandemic, the EGM will be held through VC/OAVM without physical presence of the Members in compliance and pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rules made thereunder and General Circulars dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020 and December 31, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") to transact the business as set out in the Notice of the EGM. Members attending the EGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the above circulars the EGM Notice has been electronically sent on Monday, July 12, 2021 to those Members whose name appeared in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on close of business hours on Friday, July 9, 2021 and who have registered their email addresses with the Depository Participants or with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company ("R&T Agent") or with the Company. The Notice of the EGM is also available on the Company's website: www.manoramagroup.co.in, website of stock exchange, BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of e-voting facility provider Link Intime India Private Limited ("Link Intime") at www.linkintime.co.in

Manner of Registering/Updating e-mail addresses is as below:
Members holding shares in physical mode or who have not registered/updated their email addresses with the Company are requested to register/update their email addresses by sending a duly signed request letter to the Company's R&T Agent vi. Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in by providing Name, Folio No. and complete address of the Member along with self-attested copy of the PAN Card.

Members holding shares in Dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses with their Depository Participants are requested to register/update their email addresses with their respective Depository Participants with whom they maintain their Demat Account.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended ("the Rules") and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has engaged the services of Link Intime as agency for providing e-voting facility;

a) The Company has provided the facility to the Members holding shares in Physical mode as well as in dematerialized form to cast their vote on the matters set forth in EGM Notice either by way of "remote e-voting" facility, prior to the EGM or by way of electronic voting system during the EGM. The instructions for joining the EGM and the manner of participation and voting are provided in the Notice of EGM.

b) The manner of voting by the Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of EGM.

c) A person whose names is recorded in the Register of Members or in the Registrar of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Tuesday, July 27, 2021 only shall be entitled through electronic voting system thereat.

d) Remote e-voting facility to the Members will be available during the following period (inclusive of both days):

Time, day and Date of commencement of remote e-voting	9.00 A.M.(IST) on Saturday, July 31, 2021
Time, day and Date of end of remote e-voting	5.00 P.M (IST) on Monday, August 2, 2021

e) Any person who have become a member of the Company after dispatch of the Notice of the EGM and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password for e-voting by sending email, intimating DP ID and Client ID/ Folio No. at instameet@linkintime.co.in or contact on-Tel: 022-49186175 with a copy to cs@manoramagroup.co.in. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the notice of the EGM which is available on Company's website and Link Intime's website. However, if you are already registered on Link Intime for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your vote.

f) E-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Monday, August 2, 2021.

g) Further the facility for voting through electronic voting system will also be made available during the EGM, to the Members who are attending the EGM and have not already cast their vote(s) through remote e-voting.

h) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the EGM, but shall not be allowed to vote again at the EGM.

i) In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and the e-voting user manual for members available at the download section of https://instavote.linkintime.co.in. For any grievances relating to voting by electronic means, members may contact to Mr Nihar Kudaskar; Designation: Associate Technology; Address: C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083; E-mail: enotices@linkintime.co.in; Tel.: +91 22 4918 6000

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the EGM and in-particular, instructions for joining the EGM, manner of casting vote through remote e-voting or through electing voting system during the EGM

For Manorama Industries Limited

Sd/-

Vinita Saraf

Place: Raipur
Date: July 12, 2021

Chairperson and Managing Director
DIN: 00208621

PUNJAB CHEMICALS AND CROP PROTECTION LTD.
CIN: L24231PB1975PLC047063
Regd. Office: Milestone-18, Ambala Kalka Road Vill. & P.O. Bhankarpur, Derabassi, Dist. SAS Nagar, Mohali (Punjab) - 140201
Tel No: 01762-280094, 522250, Fax No: 01762-280070
Email: info@punjabchemicals.com; website: www.punjabchemicals.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as amended, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 11th August, 2021, inter-alia, for consideration and approval of the Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the first quarter ended 30th June, 2021.

The intimation contained in this notice is available on the Company's website at www.punjabchemicals.com and also on the website of BSE Ltd. (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

For PUNJAB CHEMICALS & CROP PROTECTION LTD.

Sd/-

Date: 12th July, 2021
Place: Derabassi

PUNIT K ABROL
SR. V.P. (FINANCE) & SECRETARY

Hero MotoCorp Limited
Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070
CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-46044220
Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarialho@heromotocorp.com
Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATE
Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ("Company") are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face Value Rs.2/-) in their favour:

Folio No.	Shareholders Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares
HML0041166	ATIK CHHOTUBHAI DESAI	Rs.10/-	12312958-12312977	131155	20
			16122331-16122335	218519	05
			20535997-20536021	331084	25
HML0088026	CHETAN CHHOTABHAI DESAI	Rs.2/-	45266631-45266880	509249	250
			NISHINDER SINGH	Rs.10/-	4421816-4421865

Any person having objections to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd.

Sd/-

Place : New Delhi
Date : 12.07.2021

Neerja Sharma
Company Secretary & Chief Compliance Officer

PURAVANKARA

PURAVANKARA LIMITED

Registered Office: No. 130/1, Ulsoor Road, Bengaluru - 560042

CIN: L45200KA1986PLC051571

Tel: 08025599000 / 43439999, Fax: 08025599350

Email: investors@puravankara.com, website: www.puravankara.com

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sec.124 and 125 of the Companies Act, 2013, read with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016, the individual intimation letters, regarding the requirement of transfer of shares to 'IEPF Suspende account', were dispatched through speed post on 01/07/2021 at the latest available addresses to all the concerned shareholders, who have not encashed or claimed dividends for last 7 (Seven) consecutive years or more commencing from the year 2013-14, to the Demat Account of IEPF Authority set up by the Central Government.

In this regard, all the details of the concerned shareholders and shares due for transfer are provided in the 'Investors' page of the website of the Company viz., www.puravankara.com under the heading: IEPF - Unclaimed Dividends.

All the concerned shareholders, whose folio and other particulars are reflected in the file 'IEPF- Transfer of shares' on the website of the Company, are requested to note that in terms of the above cited statutory provisions, the Company will be constrained to transfer your shares to the 'IEPF Suspende Account'.

Subsequent to such transfer of shares to 'IEPF Suspende Account', all benefits, if any which may accrue in future, for the subject folio, including future Dividend, will be credited to the said IEPF Suspende Account. In terms of Rule 7 of the said Rules, any person may claim his shares from IEPF authorities by filing an application in Form IEPF-5 and follow the prescribed procedure for re-transfer of such shares.

The IEPF Authority (Accounting, Transfer and Refund) Rules, 2016 is made available on the 'Investor' page on our website: www.puravankara.com for ready reference of our shareholders. For further clarifications, please send e-mail to iepf.shares@linkintime.co.in or investors@puravankara.com

For Puravankara Limited

Place: Bengaluru
Date: 12/07/2021

Nani R. Choksey
Vice Chairman
DIN: 00504555

1. Approval for change of name Limited and consequential amendment of the Company; and

2. Alteration in the Articles of Association of the Company.
Based on the Report dated 12 July 2021 the Scrutinizer appointed for the e-voting process in respect of the above Resolutions is as follows:

Resolution no. 1 -

Sr. No.	Votes casted	Position
1	Favour	
2	Against	
Total		

Resolution no. 2 -

Sr. No.	Votes casted	Position
1	Favour	
2	Against	
Total		

Above Resolutions as set out in the Notice of the EGM were passed by a majority on 11 July 2021 i.e. the last date of voting.

The Postal Ballot results are hosted on the website of the Company at <https://www.magma.co.in/about-us>

Date : 12 July 2021
Place : Kolkata

Home First

Regd. Office: 511, A
Phone Nos.: +91 6694 0386 E

NOTICE OF 12th A

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting ("the Company") will be held through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means (OAVM) facility ONLY, on August 5, 2021 at 11.00 a.m. IST, to transact the business as set out in the Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2020-21 dated April 8, 2020, April 13, 2020, April 15, 2020, April 20, 2020, April 27, 2020, April 28, 2020, April 29, 2020, April 30, 2020, May 1, 2020, May 2, 2020, May 3, 2020, May 4, 2020, May 5, 2020, May 6, 2020, May 7, 2020, May 8, 2020, May 9, 2020, May 10, 2020, May 11, 2020, May 12, 2020, May 13, 2020, May 14, 2020, May 15, 2020, May 16, 2020, May 17, 2020, May 18, 2020, May 19, 2020, May 20, 2020, May 21, 2020, May 22, 2020, May 23, 2020, May 24, 2020, May 25, 2020, May 26, 2020, May 27, 2020, May 28, 2020, May 29, 2020, May 30, 2020, May 31, 2020, June 1, 2020, June 2, 2020, June 3, 2020, June 4, 2020, June 5, 2020, June 6, 2020, June 7, 2020, June 8, 2020, June 9, 2020, June 10, 2020, June 11, 2020, June 12, 2020, June 13, 2020, June 14, 2020, June 15, 2020, June 16, 2020, June 17, 2020, June 18, 2020, June 19, 2020, June 20, 2020, June 21, 2020, June 22, 2020, June 23, 2020, June 24, 2020, June 25, 2020, June 26, 2020, June 27, 2020, June 28, 2020, June 29, 2020, June 30, 2020, July 1, 2020, July 2, 2020, July 3, 2020, July 4, 2020, July 5, 2020, July 6, 2020, July 7, 2020, July 8, 2020, July 9, 2020, July 10, 2020, July 11, 2020, July 12, 2020, July 13, 2020, July 14, 2020, July 15, 2020, July 16, 2020, July 17, 2020, July 18, 2020, July 19, 2020, July 20, 2020, July 21, 2020, July 22, 2020, July 23, 2020, July 24, 2020, July 25, 2020, July 26, 2020, July 27, 2020, July 28, 2020, July 29, 2020, July 30, 2020, July 31, 2020, August 1, 2020, August 2, 2020, August 3, 2020, August 4, 2020, August 5, 2020, August 6, 2020, August 7, 2020, August 8, 2020, August 9, 2020, August 10, 2020, August 11, 2020, August 12, 2020, August 13, 2020, August 14, 2020, August 15, 2020, August 16, 2020, August 17, 2020, August 18, 2020, August 19, 2020, August 20, 2020, August 21, 2020, August 22, 2020, August 23, 2020, August 24, 2020, August 25, 2020, August 26, 2020, August 27, 2020, August 28, 2020, August 29, 2020, August 30, 2020, August 31, 2020, September 1, 2020, September 2, 2020, September 3, 2020, September 4, 2020, September 5, 2020, September 6, 2020, September 7, 2020, September 8, 2020, September 9, 2020, September 10, 2020, September 11, 2020, September 12, 2020, September 13, 2020, September 14, 2020, September 15, 2020, September 16, 2020, September 17, 2020, September 18, 2020, September 19, 2020, September 20, 2020, September 21, 2020, September 22, 2020, September 23, 2020, September 24, 2020, September 25, 2020, September 26, 2020, September 27, 2020, September 28, 2020, September 29, 2020, September 30, 2020, October 1, 2020, October 2, 2020, October 3, 2020, October 4, 2020, October 5, 2020, October 6, 2020, October 7, 2020, October 8, 2020, October 9, 2020, October 10, 2020, October 11, 2020, October 12, 2020, October 13, 2020, October 14, 2020, October 15, 2020, October 16, 2020, October 17, 2020, October 18, 2020, October 19, 2020, October 20, 2020, October 21, 2020, October 22, 2020, October 23, 2020, October 24, 2020, October 25, 2020, October 26, 2020, October 27, 2020, October 28, 2020, October 29, 2020, October 30, 2020, October 31, 2020, November 1, 2020, November 2, 2020, November 3, 2020, November 4, 2020, November 5, 2020, November 6, 2020, November 7, 2020, November 8, 2020, November 9, 2020, November 10, 2020, November 11, 2020, November 12, 2020, November 13, 2020, November 14, 2020, November 15, 2020, November 16, 2020, November 17, 2020, November 18, 2020, November 19, 2020, November 20, 2020, November 21, 2020, November 22, 2020, November 23, 2020, November 24, 2020, November 25, 2020, November 26, 2020, November 27, 2020, November 28, 2020, November 29, 2020, November 30, 2020, December 1, 2020, December 2, 2020, December 3, 2020, December 4, 2020, December 5, 2020, December 6, 2020, December 7, 2020, December 8, 2020, December 9, 2020, December 10, 2020, December 11, 2020, December 12, 2020, December 13, 2020, December 14, 2020, December 15, 2020, December 16, 2020, December 17, 2020, December 18, 2020, December 19, 2020, December 20, 2020, December 21, 2020, December 22, 2020, December 23, 2020, December 24, 2020, December 25, 2020, December 26, 2020, December 27, 2020, December 28, 2020, December 29, 2020, December 30, 2020, December 31, 2020, January 1, 2021, January 2, 2021, January 3, 2021, January 4, 2021, January 5, 2021, January 6, 2021, January 7, 2021, January 8, 2021, January 9, 2021, January 10, 2021, January 11, 2021, January 12, 2021, January 13, 2021, January 14, 2021, January 15, 2021, January 16, 2021, January 17, 2021, January 18, 2021, January 19, 2021, January 20, 2021, January 21, 2021, January 22, 2021, January 23, 2021, January 24, 2021, January 25, 2021, January 26, 2021, January 27, 2021, January 28, 2021, January 29, 2021, January 30, 2021, January 31, 2021, February 1, 2021, February 2, 2021, February 3, 2021, February 4, 2021, February 5, 2021, February 6, 2021, February 7, 2021, February 8, 2021, February 9, 2021, February 10, 2021, February 11, 2021, February 12, 2021, February 13, 2021, February 14, 2021, February 15, 2021, February 16, 2021, February 17, 2021, February 18, 2021, February 19, 2021, February 20, 2021, February 21, 2021, February 22, 2021, February 23, 2021, February 24, 2021, February 25, 2021, February 26, 2021, February 27, 2021, February 28, 2021, February 29, 2021, March 1, 2021, March 2, 2021, March 3, 2021, March 4, 2021, March 5, 2021, March 6, 2021, March 7, 2021, March 8, 2021, March 9, 2021, March 10, 2021, March 11, 2021, March 12, 2021, March 13, 2021, March 14, 2021, March 15, 2021, March 16, 2021, March 17, 2021, March 18, 2021, March 19, 2021, March 20, 2021, March 21, 2021, March 22, 2021, March 23, 2021, March 24, 2021, March 25, 2021, March 26, 2021, March 27, 2021, March 28, 2021, March 29, 2021, March 30, 2021, March 31, 2021, April 1, 2021, April 2, 2021, April 3, 2021, April 4, 2021, April 5, 2021, April 6, 2021, April 7, 2021, April 8, 2021, April 9, 2021, April 10, 2021, April 11, 2021, April 12, 2021, April 13, 2021, April 14, 2021, April 15, 2021, April 16, 2021, April 17, 2021, April 18, 2021, April 19, 2021, April 20, 2021, April 21, 2021, April 22, 2021, April 23, 2021, April 24, 2021, April 25, 2021, April 26, 2021, April 27, 2021, April 28, 2021, April 29, 2021, April 30, 2021, May 1, 2021, May 2, 2021, May 3, 2021, May 4, 2021, May 5, 2021, May 6, 2021, May 7, 2021, May 8, 2021, May 9, 2021, May 10, 2021, May 11, 2021, May 12, 2021, May 13, 2021, May 14, 2021, May 15, 2021, May 16, 2021, May 17, 2021, May 18, 2021, May 19, 2021, May 20, 2021, May 21, 2021, May 22, 2021, May 23, 2021, May 24, 2021, May 25, 2021, May 26, 2021, May 27, 2021, May 28, 2021, May 29, 2021, May 30, 2021, May 31, 2021, June 1, 2021, June 2, 2021, June 3, 2021, June 4, 2021, June 5, 2021, June 6, 2021, June 7, 2021, June 8, 2021, June 9, 2021, June 10, 2021, June 11, 2021, June 12, 2021, June 13, 2021, June 14, 2021, June 15, 2021, June 16, 2021, June 17, 2021, June 18, 2021, June 19, 2021, June 20, 2021, June 21, 2021, June 22, 2021, June 23, 2021, June 24, 2021, June 25, 2021, June 26, 2021, June 27, 2021, June 28, 2021, June 29, 2021, June 30, 2021, July 1, 2021, July 2, 2021, July 3, 2021, July 4, 2021, July 5, 2021, July 6, 2021, July 7, 2021, July 8, 2021, July 9, 2021, July 10, 2021, July 11, 2021, July 12, 2021, July 13, 2021, July 14, 2021, July 15, 2021, July 16, 2021, July 17, 2021, July 18, 2021, July 19, 2021, July 20, 2021, July 21, 2021, July 22, 2021, July 23, 2021, July 24, 2021, July 25, 2021, July 26, 2021, July 27, 2021, July 28, 2021, July 29, 2021, July 30, 2021, July 31, 2021, August 1, 2021, August 2, 2021, August 3, 2021, August 4, 2021, August 5, 2021, August 6, 2021, August 7, 2021, August 8, 2021, August 9, 2021, August 10, 2021, August 11, 2021, August 12, 2021, August 13, 2021, August 14, 2021, August 15, 2021, August 16, 2021, August 17, 2021, August 18, 2021, August 19, 2021, August 20, 2021, August 21, 2021, August 22, 2021, August 23, 2021, August 24, 2021, August 25, 2021, August 26, 2021, August 27, 2021, August 28, 2021, August 29, 2021, August 30, 2021, August 31, 2021, September 1, 2021, September 2, 2021, September 3, 2021, September 4, 2021, September 5, 2021, September 6, 2021, September 7, 2021, September 8, 2021, September 9, 2021, September 10, 2021, September 11, 2021, September 12, 2021, September 13, 2021, September 14, 2021, September 15, 2021, September 16, 2021, September 17, 2021, September 18, 2021, September 19, 2021, September 20, 2021, September 21, 2021, September 22, 2021, September 23, 2021, September 24, 2021, September 25, 2021, September 26, 2021, September 27, 2021, September 28, 2021, September 29, 2021, September 30, 2021, October 1, 2021, October 2, 2021, October 3, 2021, October 4, 2021, October 5, 2021, October 6, 2021, October 7, 2021, October 8, 2021, October 9, 2021, October 10, 2021, October 11, 2021, October 12, 2021, October 13, 2021, October 14, 2021, October 15, 2021, October 16, 2021, October 17, 2021, October 18, 2021, October 19, 2021, October 20, 2021, October 21, 2021, October 22, 2021, October 23, 2021,

के लिए अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। सभा कार्यालय: आईआईएफएल एक्सचेंज, ए-1बी तथा ए-1बी, इंदौर।
 नगर, गौतम बुद्ध नगर-201301 तथा प्लॉट नं. 30/30ई, अरब हाउस फ्लोर, मेन गिवासी मार्ग, नगरकंद रोड, जवाहर
 नगर, नई दिल्ली तथा कार्यालय नं. 1, अरब हाउस, इन्फोटेक रोड, प्लॉट नं. सी-1, सेक्टर-4, गैंगारो, गाँविका, नए
 नगर, नई दिल्ली। कार्यालय नं. 101, प्रथम तल, पवन मेघ मॉल, सोमेश्वर, हरियाणा-131001 तथा अरब हाउस
 नगर, प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विभाग, हरियाणा।
 ब्राह्म, सोमेश्वर, दिल्ली।

हस्ता/- अधिकृत प्राधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

स एंड फामास्यूटिकल्स लि.
 एल 10, लक्ष्मीटावर, एल.एस.सी., ब्लॉक-सी,
 10034, फोन: 47511000, फैक्स: 27023256
L24232DL1996PLC22773

सहरी का अन्वेषित वित्तीय परिणाम

(रु. लाखों)

समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
अनकेंद्रित	2.25	5.16	5.10	3.35
(2.40)	3.98	0.57	5.51	
1211.86	1211.86	1211.86	1211.86	
-	-	-	(1204.92)	
(0.02)	0.03	0.05	0.05	

कम्पनी के अनकेंद्रित वित्तीय परिणामों को कम्पनी
 मावली, 2016 द्वारा तथा संशोधित कम्पनी (भारतीय
 गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के

डिजिटल डिवाइस समीक्षा की गई तथा 12 जुलाई, 2021
 द्वारा अनुमोदित कर उसे अभिलेख में लिये गये।
 गटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के
 2021 का समाप्त तिमाही के अनकेंद्रित वित्तीय परिणामों
 1 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणामों का समुच्चय प्रारूप
 india.com पर उपलब्ध है।

हस्ता/-
 सुधीर चन्द्रा
 (प्रबंध निदेशक)

न एजुकेशन लिमिटेड
IDL1993PLC052256
 162/टी-10, मेन पेटल रोड नई दिल्ली-110008
 .com; Website: www.virtualeducation.in
011-41522143

**II, पुस्तक बंद होने एवं रिपोर्ट
 जनकारी हेतु सूचना**

न एजुकेशन लिमिटेड (कम्पनी) को 28वीं वार्षिक आम सभा
 पूर्ण। न वित्तीय कॉर्पोरेशन (सीबीआई) अथवा वित्तीय विनियम
 समूह एनबीए की सूचना में निदिष्ट सभास्थल तथा विशेष व्यवसायों
 2021 को समाप्त दिवस वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट तथा रिपोर्ट ई-
 सभा सदस्यों को भेज दिये गये हैं जिन्हें ईमेल आईडी
 है। शेयरधारकों को सूचना के ईमेल को पूर्णतः को विधि 12

नहीं करायें तो कृपया एफवाई 2020-21 का वार्षिक रिपोर्ट
 के लिये अपने ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिये नीचे दिये गये
 , शेयर प्रमाणपत्र (फ़ॉटो एवं बैंक) की स्कैन की गई प्रति, पैन
 कार्ड (आधार कार्ड की स्वतः स्कैनित स्कैन की गई प्रति) ई-
 info@skylineira.com पर फ़ाइलनाम फ़ाइलनाम सर्विस
 न्स के साथ अपलोड करें।
 (सीबी) से सम्पर्क कर तथा डीपी के फ़ॉर्मस से प्रक्रिया के अनुसार

नी वेबसाइट www.virtualeducation.in पर भी उपलब्ध है।
 II-संशोधित तथा सेबी (सूचीबद्ध वित्तीय एवं उद्घरण अपेक्षा)
 नी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में
 क्षम बनाने के लिये अपनी वेबसाइट www.evotingindia.com
 (एलएसडीएस) द्वारा सभी व्यवसायों को निर्धारित करने के लिए
 स्वयं सुचक, 4 अगस्त, 2021 (9.00 बजे पूर्ण) में शुरू होगी
 बंद होगी। उक्त विधि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति
 लाई की पीसक पद्धति या डिजिटल वोटिंग पद्धति में शेयर धारित
 मतदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद
 तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 30 जुलाई, 2021 को शेयर धारित
 लाई लहान फ़ाइलनाम सर्विस (पी) लि. को info@skylineira.com
 पर ईमेल द्वारा सूचना दे सकते हैं। लेकिन यदि सदस्य रिपोर्ट ई-वोटिंग के
 लिये न अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग
 लिए ई-वोटिंग पद्धति विकल्प कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी
 भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 कृपया जागृकी तथा निम्न सदस्यों ने एजीएम में पूर्व रिपोर्ट ई-वोटिंग
 की हो सकती है। किन्तु फिर से मतदान के लिए अधिकृत नहीं
 करत कम्पनी सचिव (सदस्यता नं. 54717 एवं सीपी नं. 21005)
 की निरस्त अधिना एजीएम की सूचना के साथ भेजी गई पत्र में
 श्री आर्य गुप्ता, कम्पनी सचिव, पंजाब उच्च गोलब एजुकेशन
 टेल रोड, नई दिल्ली-110008 को ईमेल: cs@virtualeduca.com

पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा
 न. 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में यह भी सूचित किया
 कि सूचना प्रारूप 31 जुलाई, 2021 से शुरूकर, 06 अगस्त,
 शेयरधारकों को अभिलेख पर लेने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।
 कृते एवं के लिए
 धरुजुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड
 हस्ता./-
 अक्षय गुप्ता
 कम्पनी सचिव एवं
 अनुपालन अधिकारी

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: इ प्रैंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 2, नेस्सन मंडेला रोड,
 वसंत कुंज - फेज - II, नई दिल्ली - 110070
 सीआईएन: L35911DL1984PLC017354 | फोन: 011-46044220
 फैक्स: 011-46044399 | ई-मेल: secretarialho@heromotocorp.com
 वेबसाइट: www.heromotocorp.com

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना
 आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (कंपनी) के मौजूदा शेयरधारकों को एतद्वारा
 सूचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं
 मिले हैं / गम हो गए हैं, ऐसी सूचना संबंधित शेयरधारकों से इस संबंध में प्राप्त हुई है। कंपनी उक्तके पक्ष
 में मूल शेयर प्रमाणपत्र (अंकित मूल्य रु. 2/-) के एवज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने को
 द्वारा उरखती है:

फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	अंकित मूल्य	डिस्टिन्कटिव नं.	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरो की संख्या
HML0041166	अतीक खोटेभाई देसाई	रु. 10/-	12312958-12312977 16122331-16122335 20535997-20536021	131155 20 331084	25
	चैतन खोटेभाई देसाई	रु. 2/-	45266631-45266880	509249	250
HML0068026	निशिदर सिंह	रु. 10/-	4421816-4421865	88446	50

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना
 के प्रकाशन को तारीख से 7 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी के सचिवीय डिपार्टमेंट को प्रस्तुत करते
 हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या ई-मेल secretarialho@heromotocorp.com पर भेजें।
 इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लिखित शेयर प्रमाणपत्रों में निवेश करने के खिलाफ अग्रार्ह
 किया जाता है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
 हस्ता./-
 नीरजा शर्मा
 कम्पनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

सिरका पेन्ट्स इंडिया लिमिटेड
 CIN:L24219DL2006PLC145092
 पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 50, फेज-2, बादली इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042, दूरभाष: +91-11-42083083
 वेबसाइट: <https://sircapaints.com> ई-मेल: info@sircapaints.com

सूचना
 एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 16वीं एजीएम में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देने के लिए सिरका पेन्ट्स इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") की 16वीं
 वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विमुद्रण साधनों द्वारा सुचक, 6 अगस्त, 2021 को 12.30 बजे अप. आयोजित की
 जायेगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् प्लॉट नं. 50, फेज-2, बादली इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 होगा।
 कॉर्पोरेट मामलों मन्त्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र नं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल,
 2020 तथा सामान्य परिपत्र नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित सामान्य परिपत्र नं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा
 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020
 तथा नं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में कम्पनी ने उन सभी सदस्यों
 के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 16वीं एजीएम की सूचना तथा विवरण वर्ष 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट भेज दी है जिन्हें ई-मेल आईडी
 कम्पनी/डिवाइस/एजीएम (पी) के साथ पंजीकृत है। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.sircapaints.com, पैरानल स्टॉक
 एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा कैफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (इसके परचात 'कैफिन
 'आरटीई') सदस्यता www.kfintech.com पर उपलब्ध हैं।
 कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं सेबी (सूचीबद्ध
 वित्तीय एवं उद्घरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन में कम्पनी एजीएम
 में पठित होने वाले प्रस्तावित समाधानों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मतों/मतों का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सहर्ष सुविधा
 प्रदान कर रही है। 30 जुलाई, 2021 (कट-ऑफ तिथि) तक भौतिक प्रारूप या डिजिटल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य
 कैफिन द्वारा प्रवर्धित <https://evoting.kfintech.com> पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर
 सकते हैं।
 रिपोर्ट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश: रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा 2 अगस्त, 2021 (सोमवार) को 9.00 बजे पूर्ण
 प्रारम्भ होगी और 5 अगस्त, 2021 (बृहस्पतिवार) को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। उपर्युक्त तिथि एवं समय के पश्चात रिपोर्ट ई-वोटिंग
 को अनुमति नहीं होगी।
 कोई सदस्य जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुसूचित साधनों के रजिस्टर में दर्ज है
 केवल वे रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा प्रयोग करने के पात्र होंगे। ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 16वीं एजीएम की सूचना में निहित हैं।
 ई-मेल पर पंजीकृत कराने/अपडेट कराने की रीति: निम्न सदस्यों ने अपने ई-मेल पर तथा मोबाइल नम्बर पंजीकृत नहीं करवाये हैं वे कृपया
<https://ris.kfintech.com/client-services/mobileereg/mobile-mailreg.aspx> पर क्लिक करके कैफिन के साथ स्वयं की
 अस्थायी रूप से पंजीकृत करा लें।
 कृपया समय-वद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए कम्पनी/अपने डिपॉजिटरी भागधार के साथ अपने सबसे अपडेटेड ई-मेल आईडी पंजीकृत करवायें।
 ई-एजीएम में शामिल होने की रीति: वीसीओ/एजीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश 16वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध
 हैं। वीसीओ/एजीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं किया
 है तथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली से मतदान करने के पात्र होंगे। निम्न सदस्यों ने
 एजीएम से पूर्व रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लिया है वे भी वीसीओ/एजीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग
 ले सकते हैं किन्तु उन्हें एजीएम में पुनः अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 निम्न सदस्यों ने शेयर अर्जित कर लिये हैं और सूचना भेजे जाने के पश्चात कम्पनी के सदस्य हो गये हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् सुचक, 30 जुलाई,
 2021 तक पत्र पर आधारित है, वे einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल से निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
 बृहत् क्लोनर: एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013
 की धारा 91 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 एवं उसके तहत प्रयोग नियमों के अनुसार वार्षिक आम बैठक तथा
 अन्तिम लाभांश के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तर्गत पुस्तिकाएँ सचिव, 31 जुलाई, 2021 से सुचक, 6 अगस्त,
 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

निदेशक मंडल द्वारा संसृत 31 मार्च, 2020 को समाप्त विवरण हेतु अन्तिम लाभांश, यदि 16वीं एजीएम में अनुमोदित होता है तो इसे उन
 सदस्यों को बृहस्पतिवार, 12 अगस्त, 2021 को या इसके पश्चात प्रदान किया जायेगा निम्नके नाम सुचक, 30 जुलाई, 2021 तक सदस्यों
 के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
 किसी पुरालोक/शिकायत के लिए आप <https://evoting.kfintech.com/> के 'डाउनलोड' खण्ड में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रिकॉरेटली
 आरख्ड क्लोनर (एफफक्यू) तथा ई-वोटिंग यूजर विमुद्रण का सदस्य ले सकते हैं या कैफिन से 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर सम्पर्क
 कर सकते हैं।

सिरका पेन्ट्स इंडिया लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से
 चाहत महाजन
 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि: 12/07/2021
 स्थान: दिल्ली

अनुमोदित वित्तीय परिणामों का समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष
 अनदेखी की। आरोपियों को सेशन अदालत ने उम्रकैद की
 सजा सुनाई थी। इस जनसंसार में 19 मार्च 1999 को
 माओवादियों ने जहानाबाद के एक गांव में अगड़ी जाति
 के 34 लोगों को मौत के घाट उतारा था।

फर्जी दस्तावेज से सरकारी विज्ञापन लेने वाले अखबारों के खिलाफ सीबीआइ की प्राथमिकी

**जनसत्ता ब्यूरो
 नई दिल्ली, 12 जुलाई।**
 'हेल्थ ऑफ भारत' और 'दिल्ली
 हेल्थ' को सरकारी विज्ञापन प्राप्त
 करने के लिए डीएवीपी में
 सूचीबद्ध किया गया था।
 एजेंसी की आंतरिक जांच के
 दौरान यह पाया गया कि अखबार
 पर दिए प्रेस के पते से ऐसा कोई
 समाचार पत्र प्रकाशित नहीं किया
 जा रहा था और न ही इन्हें कोई
 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज
 किया है। अधिकारियों ने सोमवार
 को यह जानकारी दी।
 यह मामला लगभग दो साल
 पहले विज्ञापन और दृश्य प्रचार

निदेशालय (डीएवीपी) में
 सीबीआइ द्वारा
 की गई
 औचक जांच
 में सामने
 आया था।
 डीएवीपी अब
 'ब्यूरो ऑफ
 आउटरीच एंड
 कम्प्युनिकेशन'
 (बीओसी) के
 नाम से जाना
 जाता है। एक
 मामले में यह
 पाया गया कि
 छह समाचार
 पत्र- अर्जुन
 टाइम्स के दो
 सांस्कृतिक

सूचीबद्ध विज्ञापन
 प्रदाताओं के लिए
 अखबारों को पैनाल में शामिल
 कराने के आरोप में हरीश लांबा,
 आरती लांबा और अश्विनी कुमार
 सहित बीओसी के अज्ञात
 अधिकारियों के खिलाफ मामला
 दर्ज किया गया है।
 सीबीआइ ने आरोप लगाया
 है कि इन अखबारों ने धोखे से
 और बेईमानी से डीएवीपी से
 2016 से 2019 तक 62.24
 लाख रुपए के इश्तेहार हासिल
 किए। एक अधिकारी ने कहा कि
 अगर अखबारों को पैनाल में
 शामिल कराने की तारीख से
 गणना करती तो यह राशि अधिक
 हो सकती है।

Kohinoor Foods Ltd.
 Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor,
 Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001,
 Ph. No. 0129-4242222. Fax No. 0129-4242233
 E-Mail: info@kohinoorfoods.in. Visit us at www.kohinoorfoods.in
 CIN - L52110HR1989PLC070351

NOTICE
 Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 20th July, 2021 at the Registered Office of the Company situated at Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Surajkund, Shooting Range Road, Faridabad, Haryana - 121001 to inter-alia consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2021 and to consider recommendation of dividend, if any, for the financial year 2020-21 (Subject to approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company) and any other matter as may be considered appropriate by the Board.
 By Order of the Board of Directors
 For Kohinoor Foods Ltd.
 Sd/-
 Date: 12th July, 2021
 Place: Faridabad
 Deepak Kaushal
 Company Secretary & Manager (Legal)